

Ref. No.: SCML/2022-223/84

To
Listing Operations
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code: 511700

Sub: Newspaper publication of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022.

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022, published in Financial Express (English edition) and Jansatta (Hindi edition) on 23-January-23.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully, For **Standard Capital Market Limited**

FOR STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED

Vineeta gracing Authorised Signatory Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

Date: 23-January-23

एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड

(पूर्व में एस्कॉर्ट्स लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय: 15/5, मधुरा रोड, फरीदाबाद-121 003

शेयर गुम होने की सूचना एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सृचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्र के गम होने/ खो

जाने की सचना कंपनी को दी गई है और कम्पनी इस आधार पर इसके बदले नियत अवधि में डप्लीकेट (प्रतिलिपि) शेयर प्रमाण पत्र जारी करने का आशय रखती है।

उपरोक्त शेयर्स के सम्बंध में कोई भी व्यक्ति अपना वैध दावा रखता है तो वह कम्पनी के पंजीकत ਹਾਮੀਕਸ ਮੈਂ ਸ਼ਕਾਸਕ ਇਗੱਕ ਮੈ 16 ਇਗੋਂ ਕੇ ਪੀਰਤ ਕਸ਼ਰੀ ਆਸ਼ੀਦ ਨਵੇਂ ਕਤਰਾ ਸਕਾਰ ਹੈ।

शेयरधारक का नाम	फोलियो नम्बर	शेयसं की संख्या (फेस वेल्यू ₹10)	प्रमाण पत्र क्रमांक	विशिष्ट क्रमांक
सुषमा शर्मा	ESC0141367	150	90143175 - 90143180	25028784 1 25028933
सुषमा शर्मा	ESC0141367	150	90143181 - 90143186	31278784 से 31278933

दिनांक : 23.01.2023

करने को कहा गया था।

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank Accelera Accelera

पंखा रोड शाखा (11951) (पताः सी1/103, पंखा रोड शाखा, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058)

धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन युनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंखा रोड शाखा (11951) (पताः सी1/103, पंखा रोड शाखा, जनकपुरी, नई दिल्ली--110058) का प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिमति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार आवेदकः - 1. श्री समन मिश्रा पुत्र श्री के.एन. मिश्रा, सीडी-46, प्लॉट नं. 46, तृतीय तल, खसरा नं. 15/1/2, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली – 110045, सह–आवेदकः – 2. श्रीमती शिखा मिश्रा पत्नी श्री सुमन मिश्रा, सीडी-48, प्लॉट नं. 48, ततीय तल, खसरा नं. 15/1/2, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली -110045, सह-ओब्लिगेंट 3. श्री कुंदन सिंह ठाकुर पुत्र श्री कुमुदानाथ सिंह ठाकुर, के-3ए, टू रूम सेट, ऊपरी भूतल, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110018 को एक मांग सूचना दिनांक 31-10-2022 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 15,44,876.16 (फ. पंद्रह लाख चौवालीस हजार आठ सौ छिहत्तर और पैसे सोलह मात्र) दिनांक 01.10.2022 से भविष्य का ब्याज, खर्चे इत्यादि सहित उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भूगतान

उधारकर्ता उक्त राशि का भगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की घारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 19,01,2023 को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन युनियन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते राशि रू 15,44,876.16 (रु. पंद्रह लाख चौवालीस हजार आठ सौ छिहत्तर और पैसे सोलह मात्र) दिनांक 01.10.2022 से भविष्य का ब्याज, खर्चें इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल / बंधक संपत्ति(यों) का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट नं. 104, तृतीय तल, बिना छत के अधिकार के, सम्पत्ति नं, सीडी-46 में से, प्लॉट नं, 46 पर निर्मित, भूमि के नीचे के आनुपातिक अविभाज्य और निष्पक्ष स्वामित्व अधिकारों के साथ, क्षेत्रफल 64 वर्ग गज, स्टिल्ट फ्लोर पर एक छोटी कार पार्किंग के साथ, खसरा नं. 15/1/2 में से, ग्राम मिर्जापुर क्षेत्र में दिल्ली राज्य कॉलोनी जिसे अब महावीर एन्क्लेव कहते हैं, नई दिल्ली – 110045 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री सुमन मिश्रा पुत्र श्री के.एन. मिश्रा और श्रीमती शिखा मिश्रा पत्नी श्री सुमन मिश्रा के नाम पर है।| **क्षेत्रफल ६४ वर्ग गज,** प्लॉट नं. ४६ की चौहदी : उत्तर में – 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण में – 10 फीट चौडी गली, पुरब में – अन्य की संपत्ति, पश्चिम में – अन्य की संपत्ति

दिनांकः 19.01.2023, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Fullerton India Credit Company Limited कॉर्पोरेट कार्याः: छठा तल, बी विंग, सुप्रीम बिजनेस पार्क, पवई, मुम्बई-400076

मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन)

अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत फ्यलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) के प्राधिकत अधिकारी

के रूप में तथा नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर अधोलिखित ऋणधारकों को उक्त सुचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अधोहस्ताक्षरी का मानना है कि ऋणधारक मांग सुचना(ओं) की अनदेखी कर रहे हैं, अतः नियमों के अनुसार एफिक्शेसन तथा प्रकाशन द्वारा सूचना जारी की जा रही है। मांग सूचना का विषय वस्तु इस प्रकार है: ऋणधारक(कों) का नाम मांग सचना तिथि एवं राशि

वर्मा खाता नं. 173020910542002 रु. 26,82,498/- (रु. छब्बीस लाख		
	1. लैण्डमार्क इन्टरनेशनल, 2. चिराग वर्मा अक्षय मित्तल, 3. संगीता	31.12.2022 तथा 31.12.2022 को
	वर्मा खाता नं. 173020910542002	रु. 26,82,498/- (रु. छब्बीस लाख बयासी हजार चार सौ अन्ठानबे मात्र)

अचल सम्पत्ति (गिरवी सम्पत्ति) का विवरण वार्ड नं. IV, कूचा चौधरी, चांदनी चौक, दिल्ली में स्थित भूतल पर एक दुकान, प्रा. नं. 12, क्षेत्रफल माप 7.98

वर्ग मी., छत के अधिकार के बिना, निर्मित सम्पत्ति एमपीएल नं. 8 (पुरानी) 30 एवं 31 (नया) का भाग। ऋणधारकों को सलाह दी जाती है कि मांग सुचनाओं का अनुपालन करें तथा भुगतान की वसुली तक लागु दर पर ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउन्स चार्जेज, लागत तथा खर्चे के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सचना की उपरोक्त राशि का भगतान करें। ऋणधारक ध्यान रखें कि एफआईसीसीएल एक प्रतिभृत क्रेडीटर है तथा ऋणधारकों द्वारा प्राप्त की गई ऋण सविधा ऋणधारकों द्वारा गिरवी रखी गई सम्पत्ति/परिसम्पत्तियों जो कि प्रतिभत ऋण है, के प्रति एक प्रतिभूत ऋण है।

यदि ऋणधारक निर्धारित समय के भीतर अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित नहीं करते हैं तो एफआईसीसीएल भगतान की वसली करने के लिये अधिनियम तथा नियम के अंतर्गत बिक्री अथवा अन्य उपचार के द्वारा उसके अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने के लिये अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत होगा। एफआईसीसीएल बिक्री अथवा अंतरण के अधिकार को प्रवर्त्तित करने से पूर्व प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को एटैच एवं/अथवा सील करने के लिये भी अधिकृत होगा। प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री के उपरांत एफआईसीसीएल को यदि उसे देय सम्पूर्ण बकाये की वसूली प्राप्त नहीं होती है तो शेष बकाए की वसुली करने के लिए एफआईसीसीएल को अलग से कानुनी कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानुन के अंतर्गत एफआईसीसीएल को उपलब्ध अन्य सभी उपचारों के अतिरिक्त तथा स्वतंत्र होंगे।

ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) तथा पुनः अधिनियम की धारा 13 (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके द्वारा ऋणधारक एफआईसीसीएल की लिखित अनुमित प्राप्त किए बिना किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का (व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर) बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से व्यवसाय अथवा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का निपटारा अथवा अंतरण करने से प्रतिबंधित किए गए हैं तथा उपरोक्त की अवज्ञा उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा ऋणधारक, यदि ऐसा चाहे किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि के दौरान उसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः दिल्ली उज्वल- प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 23.01.2023 पयुलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

www.readwhere.com

Servotech Power Systems Limited

CIN: L31200DL2004PLC129379

REGISTERED OFFICE: 806, 8[™] FLOOR, CROWN HEIGHTS, HOTEL CROWN PLAZA. SECTOR 10, ROHINI, NEW DELHI-110085 | Tel No : 011-41117658 Email: investor.relations@servotechindia.com | Website: www.servotech.in

SI.	M284-170326-047-047-047-0	Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
No.	Particulars	31.12.2022 (Un-audited)	31.12.2022 (Un-audited)	31.12.2021 (Un-audited)
1	Total Revenue from Operations	8,635.70	15,866.18	4,141.58
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	519.19	671.02	143.33
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	519.19	671.02	143.33
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	387.42	501.03	107.27
5	Paid-up equity Share Capital (face value of ₹ 10/- each)	2,126.54	2,126.54	1,831.79
6	Other equity as per balance sheet	75/44/54/54/54/54	2-0.5 (0.000) 2-0	0748490000 T
7	Earnings per share of ₹ 10 each (not annualized):			
	(a) Basic ₹	1.82	2.35	0.58
	(b) Diluted ₹	1.99	2.58	0.58

. The above is an extract of the detailed format of un-audited consolidated financial results for the quater and nine months ended 31" December, 2022 filed with the NSE under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited financial results (standalone and consolidated) for the for the quarter and nine months ended 31" December, 2022 is available on the Company's website i.e www.servotech.in under Investor section and on the NSE website i.e www.nseindia.com The Key Standalone financial information is as under:

SI. No.		Quarter Ended	Nine Months Ended	Quarter Ended
No.	Particulars	31.12.2022 (Un-audited)	31.12.2022 (Un-audited)	31.12.2021 (Un-audited)
1	Total revenue from operations	8,253.65	15,313.64	3,823.06
2	Profit/(Loss) before tax	479.73	635.93	122.53
3	Profit/(Loss) after tax	358.99	475.87	90.04
-				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

For Servotech Power Systems Limited

Raman Bhatia

DIN: 00153827

Managing Director

Date: 21.01.2023 Place: New Delhi

हिंदुजा हाउसिंग फाईमेंस लिमिटेड कॉर्पेरेट कार्यालयः नं. 167-169, दितीय तल, अना सलाई, सैवापेट, चेन्नई-600015 HINDUJA HOUSING FINANC शाखा कार्यालयः 418, चतुर्थं तल, पर्ल ओमेक्स टॉवर-2, नेताजी सुभाव प्लेस, पीतमपुरा दिल्ली 110034, सम्पर्क नं. 8826934787 प्राथिकृत अधिकारीः हर्ष तिहारिया, ईमेलः Harshtiharia.g@hindujahousingfinance.com

एतद्दवारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है। कि हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लिया गया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद लिफाफे में अचल संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव

नीलामी सह बिक्री हेत् सार्वजनिक सचना

आमंत्रित किए जाते हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है, जिसे **"जैसा है" "जहां है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है। जिसका विवरण नीचे दिया गया हैं:--नीलामी की तिथि एवं समयः 28.02.2023 को पूर्वाह्व 11.00 बजे से अर्पा. 14.00 बजे तक

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / सह—कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम /	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल सम्पत्तियां का विवरण	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आरपी का 10 प्रतिशत
1	(ऋण खाता नं. DL/DEL/DLH/A000000145) 1. प्रदीप कुमार मऊ, ए-21/401 कृष्णा हेरिटेज शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-।।, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201005 और डी-1/501, खसरा नं. 789/533, सबोली, नाथू कॉलोनी, शाहदरा - 110032 और मैसर्स शिव सीमेंट टाइल्स एंड मार्बल्स दुकान नं. 3, प्रथम तल, सरूपा बाजार, सलारपुर, दादरी रोड -201301 2. शशि, ए-21/401 कृष्णा हेरिटेज शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-।।, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005	लाख अड्डान्वे हजार एक सौ तेईस मात्र) दिनांक 31.08.2020 तक	संपत्ति का वह सब समस्त भाग एवं अंश जोिक सम्पत्ति नं. डी-1/501 (पुराना नं. डी-1/500/1), क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, नायू कॉलोनी की आबादी में ग्राम सबोली, शाहदरा, नई दिल्ली में स्थित चीड़दी: पूरव में - रोड़, पश्चिम में - अन्य की संपत्ति, उत्तर में - अन्य की संपत्ति, दक्षिण में - अन्य की संपत्ति	₹ 20,57,850/- ₹ 2,05,785/-
2	(ऋण खाता नं. DL/DEL/DLH//A000000347) 1. सुश्री सोनिया देवी, 2. श्री गौतम कुमार, दोनों: डी–529, तृतीय तल, टैगोर गार्डन, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110027	उनतीस लाख बावन	से, बसई दारापुर के क्षेत्र में, कॉलोनी जिसे अब जनता कॉलोनी कहते है, शिवाजी विहार, रघुबीर	₹ 29,83,500/- ₹ 2,98,350/-

ईएमडी और केवाईसी के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्रों में सीलबंद बोली / प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि **27.02.2023 पूर्वाइ 10:00 बजे से** अपराह 4.00 बजे के बीच, क्षेत्रीय कार्यालय 418 चतुर्थ तल, पर्ल ओमेक्स टॉवर—2, नेताजी सुभाष प्लेस नई दिल्ली 110034 किया जा सकता है। जो निविदाएं नहीं भरी गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अमान्य निविदा मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकार कर दी

संपत्ति हेत् बोली / प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि 28.02.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालय 418, चौथी मंजिल, पर्ल ओमैक्स टावर 2, नेताजी सुभाव प्लेस, नई दिल्ली-110034 पर खोली जाएगी। निविदा अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली

अचल संपत्ति के निरीक्षण की तिथि 24-02-2023 को पूर्वाह 11 बजे से सांय 5 बजे के बीच है।

. इसके अलावा, नोटिस में राशि पर ऋण समझौते के अनुसार लागू होने पर बकाया ब्याज लगाया जाएगा और आकस्मिक खर्च, लागत, आदि, इसकी वसली तक देय हागा।

5. एतदवारा ऋणी और सह–उधारकर्ता को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया जाता है और ऊपर वणित अनुसार अचल संपत्ति खरीदने हेत् इच्छक खरीदारों / क्रेता को ला सकते हैं, बिक्री के नियम और शर्तों के विवरण के अनुसार। नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों को निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल किया गया है। निविदा प्रपत्र उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में

7. उच्चतम बोली लगाने पर अचल संपत्ति की बिक्री की जाएगी। हालांकि, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित है। उल्लिखित संपत्ति को आरक्षित मुल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा।

एचएचएफएल (हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) ऊपर उल्लिखित संपत्ति पर किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी "जैसा है" "जहां है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर किया जाएगा।

 कुल ऋण बकाया राशि ऋण की राशि नहीं है। अन्य सभी शुल्क (यदि कोई हो) की गणना ऋण के बंद होने के समय की जाएगी। 10. डिमांड ड्राफ्ट "**हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**" के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर संपर्क करें।

दिनांक 23.01.2023, स्थान : नई दिल्ली श्री हर्ष तिहारिया, प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम लेन, शाहूपुरी, कोल्हापुर-416001.

आरबीएल बैंक लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय : प्रथम तल, बिल्डिंग नं. 1, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-3, नई दिल्ली-110020

ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (''सरफैसी अधिनियम'') के तहत बैंक के पास प्रभारि अचल आस्ति की बिक्री हेत ई-नीलामी बिक्री सचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार, जमानती(यों) तथा बंधककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि आरबीएल बैंक लिमिटेड (''प्रतिभृत लेनदार/बैंक'') के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियाँ (सामृहिक रूप से ''सम्पत्ति'' के रूप में सन्दर्भित), जिसका सांकेतिक कब्जा नियमों के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, बैंक के बकाया देयताओं और नियमों के नियम 8 के तहत यहां नीचे वर्णित के अनुसार ब्याज सहित नीचे ई-नीलामी अनुसूची के अनुसार संविदा आमन्त्रण के माध्यम से ''जहां है जैसे है'', ''जो कुछ भी है यही है'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर बिकी की जायेगी।

पार्टियों. बकाया देयताओं तथा सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण

कर्जदार तथा जमानती(यों) के नाम मैसर्स सरस्वती बुक एजेंसी (इसके	सम्पत्ति(यों) तथा बंधककर्ता का विवरण संपत्ति संख्या 2 पुरानी (नई संख्या 6/4,	माग सूचना के अनुसार राशि सरफैसी अधिनियम के तहत मांग सूचना की तिथि रु. 58,12,130.03/- (रुपये	आरक्षित मूल्य ईएमडी संविदा वृद्धि राशि आरक्षित मूल्य :	ई-नीलामी की तिथि⁄समय 28.02.2023	दस्तावेजों सहित संविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि 27.02.2023 को	अधिकृत प्राधिकारी का नाम/फोन नं./ ई-मेल आईडी श्रीमती मोनिका
प्रोपराइटर श्री अमित सहगल के माध्यम से) संपत्ति नंबर 2 (नया नंबर 6/4), धमावाला मोहल्ला, देहरादून -248001 अमित सहगल (मृतक होने से) के कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि संपत्ति संख्या 2 (नया नंबर 6/4), धमावाला मोहल्ला, देहरादून- 248001 श्रीमती मनीषा सहगल, संपत्ति संख्या 2 (नया नंबर 6/4), धमावाला मोहल्ला, देहरादून -248001 श्री मनीष सहगल संपत्ति संख्या 2 (नया नंबर 6/4), धमावाला मोहल्ला, देहरादून- 248001	अनुसूची-एः नगरपालिका संख्या 2, (नया नंबर 6/4) का सम्पूर्ण भूतल, धमावाला मोहल्ला, देहरादून, क्षेत्रफल 48.50 वर्ग मीटर, निर्मित क्षेत्र	अट्ठावन लाख बारह हजार एक सौ तीस एवं तीन पैसे मात्र) तिथि 18.10.2022 तक मांग सूचना तिथि 19.10.2022 तक कब्जे की तिथि (सांकेतिक) सूचना-06.01.2023			तक माप 19 फीट 6 इंच	गुप्ता सम्पर्क : 9910570226 ई-मेल आईडी : monica.Gupta @rblbank. com

नियम एवं शर्तें (1) ई–नीलामी बिक्री ई–नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई–नीलामी में भाग लेने से पहले https://www.bankeauctions.com तथा https://www.rblbank.com/pdf-pages/news की वेबसाइट पर उपलब्ध नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

(2) बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और खुद को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। (3) इच्छुक बोलीदाता अपना विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com (यूजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराकर निःशुल

प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। राशि आरबीएल बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगी:- ऑक्शन प्रोसीड्स कलेक्शन जीएल, खाता संख्य 2599001000139998 (आईएफएससी कोड RATN0000100) में 27.02.2023 को अपराह्न 02:00 बजे तक या उससे पहले।

[4] इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क नंबरः 7291981124/25/26 से ई-नीलामी पर सहायता/ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, संपर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान मोबाइल नंबरः 9813887931 ई-मैल-आईडीः delhi@c1india.com और संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, वे श्रीमती मोनिका गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नंबर 9910570226, ईमेलः monica.Gupta@rblbank.com) तथ समीरेन्दु पात्रा (मोब- 8280268950, ईमेलः samirendu.patra@rblbank.com) से संपर्क कर सकते हैं। (5) बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, और/या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध

उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। (6) सफल बोलीदाता को कन्वीएंस अर्थात स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क इत्यादि, लागू कानून के अनुसार और अन्य ज्ञात/अज्ञात वैधानिक/सरकारी/श्रम बकाया/कर बकाया आदि का भुगतान खरीद प्रतिफल के अतिरिक्त क

देय शुल्क/प्रभार वहन करना होगा।

7) सफल बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के अगले दिन पहले से जमा ईएमडी को समायोजित करने के बाद बोली राशि का 25% और बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारि अविध के भीतर जैसा कि लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर सहमित व्यक्त की गई हो, बोली मूल्य का शेष 75% जमा करेगा। ऊपर उल्लिखित निर्धारित अविध के भीतर बोली राशि का 25%/शेष राशि का 75% जमा करने में विफल रहने पर, जमा की गई पूरी राशि (ईएमडी सहित) बिना किसी नोटिस के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति की तुरंत दुबारा बिक्री की जायेगी। प्राधिकृत अधिकार्र बिना कोई कारण बताए किसी भी/या सभी बोलियों को अस्वीकार करने या नीलामी बिक्री को स्थगित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सरफैसी अधिनियम के तहत 30 दिवसीय सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्वारा कर्जदार, जमानती(यों) तथा बंधककर्ता(ओं) को भावी ब्याज तथा दण्डात्मक एवं अन्य ब्याज तथा ट्रांजेक्शन दस्तावेज के अनुसार राशियों सहित उपर्युक्त राशि को ई-नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी। तिथि : 23.01.2023, स्थान : देहरादून अधिकृत प्राधिकारी, आरबीएल बैंक लिमिटेड

स्टेण्डर्ड केपिटल मार्कटस लिमिटेड

CIN: L74899DL1987PLC027057

पंजी. कार्या: 401-ए. पीपी टावर्स. नेताजी सभाष प्लेस. पीतमपरा. दिल्ली-110034

ईमेलः stancap.delhi@gmail.com, वेबसाईटः http://www.stancap.co.in, सम्पर्क नं. 9871652224 31 दिसम्बर, 2022 का समाप्त ातमाहा एव छमाहा क लिए अनकाक्षत ावत्ताय पारणामा का सार

					(रु. लाखा म)
क्रम	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त	समाप्त
सं.				नौ महीने	नौ महीने
		31 दिस. 22	31 दिस. 21	30 दिस. 22	31 दिस. 21
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	291.24	12.79	548.86	30.21
2.					
	पूर्व)	60.13	2.74	134.98	5.52
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण				
	मदों के बाद)	60.13	2.74	134.98	5.52
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण				
	मदों के बाद)	44.50	2.03	112.91	4.08
5.	अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं				
	अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	44.50	2.03	112.91	4.08
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	400.01	400.01	400.01	400.01
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का)				
	क) मूलः	1.11	0.05	2.82	0.10
	ख) तरलः	1.11	0.05	2.82	0.10
निम	min.	-			

1) उपरोक्त विवरण सेबी (सचीयन दायित्व तथा अन्य उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट http://www.stancap.co.in पर उपलब्ध हैं।

2) उपरोक्त परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 21 जनवरी, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बोर्ड के आदेश से

स्टैण्डर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लिये राम गोपाल जिन्दल

(प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 21.01.2023

GOOD VALUE IRRIGATION LIMITED Registered Office: 3rd Floor, Industrial Assurance Building, Churchgate, Mumbai- 400020 Tel. No. +91- 022-22820663; E-mail: goodvalueirrigationltd@gmail.com; Website: www.gvil.co.in CIN: L74999MH1993PLC074167

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Good Value Irrigation Limited ("Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by Mr. Rahul Anandrao Bhargav ("Acquirer") to the Public Shareholders of the Target Company ("Shareholders") under Regulations 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and Subsequent Amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations, 2011").

1	Date	23/01/2023			
2	Target Company ("TC")	Goo	d Value Irrigation Limited		
3	Details of the Offer pertaining to the Target Company	The Offer is being made by the Acquirer pursuant to Regulation 3(1) Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 for the acquisition 46,28,390 (Forty-Six Lakhs Twenty-Eight Thousand Three Hundred Ninety) Equity Shares of the Face Value of Rs. 10/- each representing 26 of the Equity Share Capital/ Voting Capital of the Target Company at a of Rs. 0.10/- (Rupees Ten Paisa Only) ("Offer Price"), payable in Cast			
4	Acquirer	Mr. Rahul Anandrao Bhargav			
5	Manager to the Offer	Kum	varji Finstock Private Limited		
6	Members of the Committee of Independent Directors (IDC)		Mr. Vijay Achyut Oak Mrs. Padmaja Mangesh Bhande	Chairman Member	
7	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	IDC Member's is an Independent Director on the Board of the Target Compar They do not have any Equity holding in the Target Company. None of the has entered into any other contract or has other relationships with the Targ Company.			
8	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	IDC Members are Independent Directors on the Board of the Target Company. They do not have any equity holding in the Target Company. None of then has entered into any other contract or has other relationship with the Targe Company.			
9	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any.	None of the IDC Members holds any contracts, nor have any relationship with the Acquirer in their personal capacities.			
10	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	No trading in the Equity Shares/other securities of the Acquire by IDC Members			
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review of the Public Announcement and the Detailed Public Statement issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer. IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011.			
12	Summary of reasons for the recommendation	IDC a) b)	has taken into consideration the following for making has reviewed The Public Announcement ("PA") dated 19/11/20 The Detailed Public Statement ("DPS") which was 2022; The Draft Letter of Offer ("DLOF") dated 01/12/ The Letter of Offer ("LOF") dated 11/01/2023. Bas PA, DPS, DLOF and LOF, the IDC Members are Offer Price is in line with the parameters prescri Regulations. The Equity Shares of the Target Compatraded on BSE during the Twelve (12) calendar month in which PA was made as set out under Regulation (SAST) Regulation, 2011. The Offer Price of Rs. 0.1 per Equity Share is justified in terms of Regulations SEBI (SAST) Regulations, 2011 being the highes	022; published on 25/1: 2022; sed on the review of the view that the ibed by SEBI in the any are not frequent nonths preceding the lation 2(1) (i) of SEB 10/- (Ten Paisa Only , 8(1) and 8(2) of the	
		Sr.	Particulars	Price (in Rs. per Equity Share	
		1	The highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for acquisition under any agreement attracts the obligation to make a PA of an Open Offer.	0,10/-	
		2	The volume-weighted average price paid or	0	

Rs. 0.10'- in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. 13 Details of Independent Advisors, if any. 14 Any other matter to be highlighted None To the best of our knowledge and belief, after making the proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material

respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed

In view of the parameters considered and presented in the table above, in

the opinion of acquirer and manager to the offer, the Offer Price is

payable for acquisition by the Acquirer during

Not Applicable

Not Applicable

Not Applicable

Not Applicable

52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding

The highest price paid or payable for any

(Sixty-Two) weeks immediately preceding

The volume-weighted average market price

trading days immediately preceding the date

of PA as traded on an exchange, provided

The per Equity Share value computed under

Regulation 8(5) of the Takeover Regulations,

Where the shares are not frequently traded,

the price determined by the Acquirer and the

Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value,

comparable trading multiples and earnings

such shares are frequently traded.

of such Equity Shares for a period of sixty

acquisition by the Acquirer during 26

the date of the PA.

Place: Mumbai Date: January 23, 2023

by the Target Company under the Regulations.

For and on behalf of the Committee of Good Value Irrigation Limited Mr. Vijay Achyut Oak Director (DIN: 08719919)

RBLBANK Ltd.

है'' तथा ''उपचार रहित आधार'' पर बिक्री की जायेगी।

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम लेन, शाहूपुरी, कोल्हापुर-416001.

क्षेत्रीय कार्यालय : प्रथम तल, बिल्डिंग नं. 1, ओखला इंडिस्ट्रियल एस्टेट, फेज-3, नई दिल्ली-110020

ई-नीलामी बिक्री सूचना (सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (''सरफैसी अधिनियम'') के तहत बैंक के पास प्रभारि

अचल आस्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार, जमानती(यों) तथा बंधककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि आरबीएल बैंक लिमिटेड (''प्रतिभृत लेनदार/बैंक'') के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियाँ (सामृहिक रूप से ''सम्पत्ति'' के रूप में सन्दर्भित), जिसका सांकेतिक कब्जा नियमों के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, बैंक के बकाया देयताओं और नियमों के नियम 8 एवं 9 के तहत यहां नीचे वर्णित के अनसार ब्याज सहित नीचे ई-नीलामी अनसची के अनसार संविदा आमन्त्रण के माध्यम से ''जहां है जैसे है'', ''जो कछ भी है यह

पार्टियों, बकाया देयताओं तथा सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण

कर्जदार तथा जमानती(यों) के नाम	सम्पत्ति(यों) तथा बंधककर्ता का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि सरफैसी अधिनियम के तहत मांग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य ईएमडी संविदा वृद्धि राशि	ई−नीलामी की तिथि∕समय	दस्तावेजों सहित संविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि	अधिकृत प्राधिकारी का नाम∕फोन नं.∕ई-मेल आईडी
आर आर एंड कंपनी (इसके प्रोपराइटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से) 01, राजपुर चुंगी, आगरा, गोल मार्केट के पास, उत्तर प्रदेश – 282001 मनोज कुमार सिंघल (मैसर्स आर आर एंड कंपनी के प्रोपराइटर) ई – 4/460, शहीद नगर आगरा, उ.प्र. राधा सिंघल (सह-कर्जदार) ई–4/460, शहीद नगर आगरा, उ.प्र.	फ्लोर, प्लॉट नं. 14, सम्पत्ति सं. 31/173 का भाग, डी.ए.वी. कॉम्पलेक्स, मौजा– उक्खरा, तहसील एवं जिला आगरा में स्थित।	पैसे मात्र) तिथि 07.01.2022 तक	(रुपये चौवालीस लाख साठ हजार मात्र)	28.02.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक	27.02.2023 को 2.00 बजे अप. तक	श्रीमती मोनिका गुप्ता सम्पर्क : 9910570226 ई–मेल आईडी : Monica. Gupta @rblbank. com

(1) ई-नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई-नीलामी में भाग लेने से पहले https://www.bankeauctions.com तथा https://www.rblbank.com/pdf-pages/news की वेबसाइट पर उपलब्ध नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

(2) बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और खुद को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। (3) इच्छुक बोलीदाता अपना विवरण और दस्तावेज वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com (यूजर आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराक

निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। राशि आरबीएल बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से देय होगीः- ऑक्शन प्रोसीड्स कलेक्शन जीएल, खात संख्या 2599001000139998 (आईएफएससी कोड RATN0000100) में 14.02.2023 को अपराह्न 02:00 बजे तक या उससे पहले।

(४) इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, संपर्क नंबरः 7291981124/25/26 से ई-नीलामी पर सहायता/ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, संपर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान मोबाइल नंबरः 9813887931 ई-मेल-आईडीः delhi@c1india.com और संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, वे श्रीमती मोनिका गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी (मोबाइल नंबर 9910570226, ईमेल

monica.Gupta@rblbank.com) तथा समीरेन्द्र पात्रा (मोब- 8280268950, ईमेलः samirendu.patra@rblbank.com) से संपर्क कर सकते हैं। (5) बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, और/या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध

में उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। (6) सफल बोलीदाता को कन्वीएंस अर्थात स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क इत्यादि, लागू कानून के अनुसार और अन्य ज्ञात/अज्ञात वैधानिक/सरकारी/श्रम बकाया/कर बकाया आदि का भुगतान खरीद प्रतिफल के अतिरित्त

का देय शुल्क/प्रभार वहन करना होगा।

(७) सफल बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के अगले दिन पहले से जमा ईएमडी को समायोजित करने के बाद बोली राशि का 25% और बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अविध के भीतर जैसा कि लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर सहमति व्यक्त की गई हो, बोली मूल्य का शेष 75% जमा करेगा। ऊपर उल्लिखित निर्धारित अविध के भीतर बोली राशि क

25%/शेष राशि का 75% जमा करने में विफल रहने पर, जमा की गई पूरी राशि (ईएमडी सहित) बिना किसी नोटिस के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति की तुरंत दुबारा बिक्री की जायेगी

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी/या सभी बोलियों को अस्वीकार करने या नीलामी बिक्री को स्थगित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सरफैसी अधिनियम के तहत 30 दिवसीय सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्वारा कर्जदार, जमानती(यों) तथा बंधककर्ता(ओं) को भावी ब्याज तथा दण्डात्मक एवं अन्य ब्याज तथा ट्रांजेक्शन दस्तावेज के अनुसार राशियों सहित उपर्युक्त राशि को ई-नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान करने वे लिए कहा जाता है जिसमें विफल रहने पर बकाया देयों की वसूली के लिए सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी।

तिथि : 23.01.2023, स्थान : आगरा अधिकृत प्राधिकारी, आरबीएल बैंक लिमिटेड

FINANCIAL EXPRESS

E-Auction C&C Constructions Limited (in Liquidation) (CIN: L45201DL1996PLC080401

Sale of C&C Constructions Limited as Going Concern under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Announcing the Sale of C&C Constructions Limited ("Corporate Debtor") as Going Concer under liquidation with full adoption/taking over of all bank guarantees ("BGs"), which are alive as on date issued by banks for C&C Constructions Ltd in favour of various customers/authorities pursuant to NCLT (Principal Bench, New Delhi) order dated 07th October 2022, through public e

nterested applicants may refer to the detailed Asset Sale Process Memorandum uploaded or website of the C&C Constructions Limited http://www.candcinfrastructure.com/liquidation.php and also on E-Auction website https://ncltauction.auctiontiger.net.

The Auction Sale will be done through the E-Auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net.

Debtor Debtor	Manner of Sale	Auction	Price (INR)	Submission deadline
C&C Constructions Limited	Sale of Corporate Debtor as Going Concern with full adoption/taking over of all BGs as mentioned above	February 2023	210.11 Crore (exclusive of GST, TDS and other applicable taxes & duties)	On or before 06 th
			7	No.

Please feel free to contact Mr. Navneet Kumar Gupta at navneet@minervaresolutions.com ir case any further clarification is required. Navneet Kumar Gupta

Date: 23 rd January 2023 (Reg No. IBBI/IPA-001/IP-P00001/2016-2017/10009) Place: New Delhi (Liquidator)

Extension of Eol / Investment Opportunity in Coast Realtors Private Limited Addendum to the Advertisement published on 27 September 2022

This is with reference to the advertisement for Invitation for Expression of Interest ("EOI") to submit resolution plan in relation to the Corporate Insolvency Resolution Process of Coast Realtors Private Limited published on 27 September 2022 in Financial Express and Jansatta (the "Main Advertisements"). The last date of submission of EOI as specified in the Main Advertisements stands extended till 6.00 P.M., 31 January 2023. All other terms & conditions Potential resolution applicants are requested to write to us at cirp.coastrealtors@gmail.com for

the prescribed format of the EOI to be submitted and associated terms and conditions including any updates as uploaded therein from time to time. Note: RP and the CoC reserve the right to cancel or modify the process and the timelines without

assigning any reason and without incurring any liability whatsoever. The Main Advertisements or the addendum thereto should not be construed as an offer document. Resolution applicants should write to us at the email ID provided hereinabove to keep themselves updated regarding clarifications and amendments. Mr. Ajit Gyanchand Jain

Resolution Professional of Coast Realtors Private Limited Registration No: IBBI/IPA-001/IP-P00368/2017-18/10625 Email: cirp.coastrealtors@gmail.com Correspondence Address: 204, Wall Street - 1

Near Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380006 Note - This Corrigendum is subject to the approval of the Hon'ble NCLT for the extension of CIRP period beyond 10 January 2023.

DEMAND NOTICE Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules. 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of (IFL Home Finance Ltd.(IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of theBorrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:-

Name of the Borrower(s).	Demand Notice Date & Amount	Description of secured asset (immovable property)
/Guarantor (s)	17-Jan-2023	All that piece and parcel of the property being : House and Plot
Mr. Santosh Dubey, Mrs. Monika Dubey (Prospect No	Rs. 9,98,613/- (Rupees Nine Lakh Ninety Eight Thousand Six Hundred Thirteen	No. 124, With Land Area Ad Measuring 450 Sq.ft., Carpet Area Ad Measuring 612 Sq.ft. And Built Up Area Ad Measuring 810 Sq.ft., Property out of Khata no. 127/145 Khasra no. 3/12-18/1- 18/2-19/1-24/2-7//2/1-3-4/1 Situated in Village Mundian Khurad Hadbast No. 240, Tehsil & District Ludhiana, Punjab, India.
If the entire Decree	core fall to make an execut	to UEL UEL as afarmania UEL UEL manuscroped against the above.

secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: IIFL HFL SCO 21, 5TH FLOOR, LUDHIANA FEROZGANDHI MARKET, LUDHIANA, PUNJAB - 141001/or Corporate Office: IFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana. Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd Place: Ludhiana Date: 23.01.2023

ESCORTS KUBOTA LIMITED (Formerly ESCORTS Limited)

Regd. Off.: 15/5. Mathura Road, Faridabad-121 003

NOTICE OF LOSS OF SHARES

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported as lost / misplaced and the Company intends to issue duplicate certificates in lieu thereof, in due course. Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such

claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereof.

Name of the Share Holder	Folio No.	No, of Shares (Rs.10 F.V.)	Certificate No.(S)	Distinctive No.(s)
Sushma Sharma	ESC0141367	150	90143175 - 90143180	25028784 to 25028933
Sushma Sharma	ESC0141367	150	90143181 - 90143186	31278784 to 31278933

Place: FARIDABAD Date: 23.01.2023

Fullerton India

Fullerton India Credit Company Limited Corporate Office: Supreme Business Park, Floors 5 & 6, B Wing, Powal, Mumbai 400 076 POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of Fullerton India Credit Company Limited, Having its registered office at Megh Towers, 3rd Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road Maduravoyal, Chennai, Tamil Nadu-600095 and corporate office at Floor 5 & 6, B Wing, Supreme IT Park, Supreme City, Behind Lake Castle, Powai, Mumbai 400 076, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 26.09.2022 calling upon the borrower(s)) 1) YNEXT LOGISTICS, 2) PARVEEN BOKEN, 3) SANTOSH DEVI under loan account number (s) 212220910775608 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 30,15,467/- (Rupees Thirty Lakh Fifteen Thousand Four Hundred) Sixty Seven Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 19 Day of January in the year 2023

The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the Charge of Fullerton India Credit Company Limited for an amount of Rs.30,15,467/- (Rupees Thirty Lakh Fifteen Thousand Four Hundred Sixty Seven Only) and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description Of Immovable Property: PROPERTY BEARING NO.160, AREA MEASURING 503 SQ., YDS., OUT OF KHEWAT/KHATA NO 2/2, M.NO.8, KILLA NO.15/2 (7-10), SITUATED IN VAKA MOJA DARBADI PUR. TEHSIL BADHSHAHPUR. DISTRICT GURGAON, HARYANA.

Place: Gurgaon Date: 23.01.2023

UJJAWAL- Authorised Officer. Fullerton India Credit Company Limited

Fullerton **Fullerton India Credit Company Limited** DEMAND NOTICE UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF

FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 ("the Act") AND THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ("the Rules") The undersigned being the authorized officer of Fullerton India Credit Company Limited (FICCL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below:

Demand Notice Date and Amount Name of the Borrower(s) 31/12/2022 Rs. 26.82.498/-I.LANDMARK INTERNATIONAL 2. CHIRAG VERMA AKSHAY MITTAL 3. SANGEETA VERMA (Rupees Twenty Six Lakh Eighty Account No: 173020910542002 Two Thousand Four Hundred Ninety Eight Only) As on 31.12.2022

Description of Immovable property)properties mortgaged ONE SHOP ON GROUND FLOOR BEARING PVT NO.12 HAVING ITS AREA 7.98 SO. MTRS., WITHOUT ROOF RIGHTS, BEARING PART OF BULIT UP PROPERTY BRARING MPL.NO.8 (OLD) 30 & 31 (NEW), SITUATED AT WARD NO.IV, KUCHA CHOUDHARY, CHANDNI CHOWK, DELHI.

The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the demand amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of realization of payment. The borrower(s) may note that FICCL is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, FICCL shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other remedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. FICCL is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), FICCL also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the FICCL. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to FICCL under any other law. The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s), without prior written consent of FICCL and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on any working day during normal office hours.

fînancîalexp.epapr.in

UJJAWAL - Authorised Officer Fullerton India Credit Company Limited STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED CIN: L74899DL1987PLC027057

Regd. Off: 401-A, PP Towers, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 E-mail: stancap.delhi@gmail.com Website: http://www.stancap.co.in Contact No. 9871652224

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2022

	Particulars	Quarter ended 31-Dec-22 (Unaudited)	Quarter ended 31-Dec-21 (Unaudited)	Nine Months Ended 30-Dec-22 (Unaudited)	Ended 31-Dec-21
	Total Income from Operations	291.24	12.79	548.86	30.21
2. 3.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional	60.13	2.74	134.98	5.52
.	and/or Extraordinary items)	60.13	2.74	134.98	5.52
.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	44.50	2.03	112.91	4.08
.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive				
	Income (after tax)]	44.50	2.03		4.08
.	Paid up Equity Share Capital	400.01	400.01	400.01	400.01
.	Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (not annualized for quarter)				
	Basic	1.11	0.05	2.82	0.10
	Diluted	1.11	0.05	2.82	0.10

available on the website of Stock Exchange at www.bseindia.com and Company's Website at www.stancap.co.in. The above Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company a their respective Meeting(s) held on 21-January-2023.

> By the Order of the Board For Standard Capital Markets Limited Ram Gopal Jindal

(Managing Director)

IDFC First Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792

Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031. Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas the undersigned being the authorised officer of the IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 29.04.2022 calling upon the borrower, co-borrowers and guarantors 1. Rajesh Kumar, 2. Lalita Dineshkumar, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 18,81,658.58/- (Rupees Eighteen Lac Eighty One Thousand Six Hundred Fifty Eight And Fifty Eight Paisa Only) as on 29.04.2022, within 60 days from the date of receipt of the said Demand notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned

has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub - Section (4) of Section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 19th day of January 2023. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount of Rs. 18,81,658.58/- (Rupees Eighteen Lac Eighty One Thousand Six Hundred Fifty Eight And Fifty Eight Paisa Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub - Section (8) Of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable properties.

All That Piece And Parcel Of A Residential Flat No. S.F-2, Second Floor, (M.I.G) (Front Side-Rhs), (With Roof Rights), Ameasuring 55.74 Sq. Mtrs. (Covered Area), Built On Plot No. B-1/9, Situated At "D.L.F. Ankur Vihar", Village/Pargana & Tehsil: Loni, District; Ghaziabad (U.P.), And Bounded As: East: Plot No. B-1/10, West: Plot No. B-1/8, North: Other Land South: Road 12 Meter Wide

Date:19th January 2023 Place: Ghaziabad. Loan Account No: 16000897.

Authorised Officer IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)



Place: New Delhi

Date: 21.01.2023

3P LAND HOLDINGS LIMITED

CIN: L74999MH1999PLC013394

Regd.Office: Thergaon, Pune 411 033. Tel:+91-20-40773333,Fax:91-20-40773388. E-mail:admin@3pland.com Website: www.3pland.com

Statement of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2022

f In lakhs unless stated otherwise)

	Particulars	Standalone results					Consolidated results						
Sr. No.		Quarter ended			Nine months ended Year ende		Year ended	Quarter ended			Nine months ended		Year ended
		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021		31.12.2021	31.03.2022				31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)) (Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	47.63	114.78	43.46	205.70	171.67	214.64	47.63	114.78	43.46	205.70	171.67	214.64
2	Profit before share of profit/(loss)	36.51	100.62	32.30	168.46	137.83	168.93	36.51	100.62	32.30	168.46	137.83	168.93
	of Associate and tax												
3	Net Profit for the period after	36.51	100.62	32.30	168.46	137.83	168.93	36.51	100.62	32.30	168.46	126.39	157.49
	exceptional item, share of profit/(loss)												
	of Associate but before tax			,									
4	Net Profit for the period after tax	27.68	74.94	24.30	126.55	103.52	126.91	27.68	74.94	24.30	126.55	92.08	115.47
5	Other Comprehensive Income	1,009.25	414.52	-546.69	1,063.32	1,613.88	1,896.23	1,009.25	414.52	-546.69	1,063.32	1,613.88	1,896.23
	(net of tax)		,										
6	Total Comprehensive Income for the	1,036.93	489.46	-522.39	1,189.87	1,717.40	2,023.14	1,036.93	489.46	-522.39	1,189.87	1,705.96	2,011.70
	period [Comprising Profit for the period												
	(after tax) and Other Comprehensive												
	Income (after tax)]											8	
7	Equity Share Capital	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00
	(face value 2/-per share)												
8	Other equity (excluding revaluation						6,476.62			5			6,313.97
	reserve)											y	
9	Earnings per share (of 2 each)	0.15	0.42	0.14	0.70	0.58	0.71	0.15	0.42	0.14	0.70	0.51	0.64
	Basic & Diluted.(₹)												
Note	S:												W

Place: Mumbai

Date: 21st January 2023

1) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on January 21, 2023.

2) The Limited Review under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 has been carried out by Statutory Auditor. 3) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 (IndAS) and other

recognised accounting practices and policies to the extent applicable. 4) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations

And Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these Financial Results is available on Stock Exchange website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Company's website (www.3pland.com).

5) Previous periods amounts have been regrouped wherever considered nesessary to conform to current period's presentation.

On behalf of the Board of Directors

Sd/-G.N.Jajodia Chairman



YES BANK LIMITED: Registered Office: YES BANK House, Off Western Express Highway, Santacruz East, Mumbai - 400055, India

CIN: L65190MH2003PLC143249 | Website: www.yesbank.in | Email: shareholders@yesbank.in

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

		STANDALONE		CONSOLIDATED			
PARTICULARS (₹ in Lakhs)	FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2022 (Unaudited)	FOR THE MINE MONTHS ENDED 31.12.2022 (Whaudited)	FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2021 (Unaudited)	FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2022 (Whavdited)	FOR THE WINE IMPORTHES ENDED 31.12.2022 (Whaudited)	FORTHE QUARTER ENDED 31.12.2021 (Unaudited)	
Total income from operations	7,01,518	19,32,557	5,63,203	7,06,408	19,47,520	5,666,4433	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6,888	69,157	35,604	7,243	70,620	35,537	
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,888	69,157	35,604	7,243	70,620	35,537	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,152	51, 4 97	26,643	5,507	52,960	26,576	
Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	5,152	51,497	26,643	5,507	52,960	26,576	
Paid up equity share capital (Face value of ₹ 2 each)	5,75,067	5,75,067	5,01,098	5,75,067	5,75,067	5,01,098	
Reserves (excluding revaluation reserve) (As per audited Balance sheet of Previous accounting year)	28,73,089	28,73,089	28,18,535	28,68,798	28,68,798	28,112,77311	
Securities Premium Account (As per audited Balance sheet of Previous accounting year)	32,29,498	32,29,498	32,29,492	32,29,498	32,29,498	32,29,492	
Net Worth	40,15,357	40,15,357	33,87,317				
Outstanding Debt	68,92,789	68,92,789	7/1,90,561				
Outstanding Redeemable Preference Shares	1. 1	<i>f</i>	-				
Debt Equity Ratio	1.02	1.02	1,36				
Capital Redemption Reserve	523	_	32				
Earnings Per Share (of ₹ 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -							
- Basic ₹ (before and after extraordinary items) (not annualized)	0.02	0.20	Q.11	0.02	0.21	Q.1111	
- Diluted ₹ (before and after extraordinary items) (not annualized)	0.02	0.20	Q.111	0.02	0.21	Q.1111	

Notes

Place: Mumbai

- 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly//Amnual Financial Results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SHBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly//Amnual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and Banks website www.yesbank.in
- 2. Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income are not flurnished as Ind AS is not yet made applicable to banks.

For YES BANK Limited **Prashant Kumar** Date: January 21, 2023 Managing Director & CEO